



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 348]

नई दिल्ली, बुधवार, अश्विन 20, 1976/आश्विन 28, 1898

No. 348] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1976/ASVINA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October 1976

**G.S.R. 852(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri K. Sundararajulu, Chief Director, in the Ministry of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi, as a director on the Board of Directors of the Food Corporation of India, *vice* Shri A Das, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, under the heading "Directors appointed under section 7(1)(b)", against item (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri K. Sundararajulu, Chief Director, Ministry of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi."

[No. F.4-1/73-FC-1 (Vol. II)]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

## (खाद्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1976

सा०का०नि० 852(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० सुन्दरराजुलु, मुख्य निदेशक, नागरिक सम्भरण तथा सहकारी मंत्रालय, नई दिल्ली, को श्री ए० दास के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 37, दिनांक 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, 'धारा 7(1)(ख) के अधीन नियुक्त निदेशक' शीर्षक के अन्तर्गत मद (4) के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“श्री के० सुन्दरराजुलु, मुख्य निदेशक नागरिक सम्भरण तथा सहकारी मंत्रालय, नई दिल्ली।”

[सं० फा० 4-1/73-एफ० सी०-1 (खण्ड 2)]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव।

महोदय प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976